



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6]	नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 11, 2011/पौष 21, 1932
No. 6]	NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 11, 2011/PAUSA 21, 1932

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 31 दिसम्बर, 2010

सं. टीएएमपी/34/2009-सीएचपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38 वाँ) की धारा 48 और 49 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एदतद्वारा, नए सैमी मैकेनाइज्ड क्लोज्ड कोल कन्वेयर सिस्टम के द्वारा कोयले के प्रहस्तन करने के लिए, दर निर्धारण करने हेतु चेन्नई पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव को संलग्न आदेशानुसार निपटाता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/34/2009-सीएचपीटी

चेन्नई पत्तन न्यास

.....

आवेदक

आदेश

(नवम्बर, 2010 के 10वें दिन पारित)

यह प्रकरण, नए सैमी मैकेनाइज्ड क्लोज्ड कोल कन्वेयर सिस्टम द्वारा कोयले के प्रहस्त के लिए दर निर्धारण करने हेतु चेन्नई पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

- 2.1 चेन्नई पत्तन न्यास ने अपने पत्र दिनांक 11 सितंबर, 2009 के द्वारा नए सैमी मैकेनाइज्ड क्लोज्ड कोल कन्वेयर सिस्टम के द्वारा कोयले का प्रहस्तन करने के लिए कोयला प्रबंधन करने के लिए 20 रुपये प्रति मेट्रिक टन की दर निर्धारित करने हेतु एक प्रस्ताव दाखिल किया। सी एच पी टी ने यह भी सूचित किया कि वह दरमान में समाविष्ट उपबंध के अनुसार प्रस्तावित दर तदर्थ के आधार पर प्रचालित करेगा।
- 2.2 चूँकि सीएचपीटी के द्वारा दाखिल प्रस्ताव उपकरण पर प्रशुल्क निर्धारण करने के लिए निर्धारित प्रारूप में नहीं था और दरमान मसौदा में प्रस्तावित दरों को लागू करने की शर्तें भी मौजूद नहीं थी। सीएचपीटी का प्रस्ताव, दिनांक 25 सितंबर 2009 के द्वारा कुछ प्रश्नों के साथ लौटा दिया गया और अनुरोध किया गया कि प्रस्ताव को अपेक्षित विवरणों के साथ दोबारा प्रस्तुत किया जाए। पत्तन को यह सलाह भी दी गई कि वह उन सेवाओं के लिए तदर्थ दर निर्धारित करने के लिए जो अनुबंध करती हैं कि तदर्थ दरें समतुल्य सेवाओं के लिए वर्तमान अधिसूचित प्रशुल्क के आधार पर परिभाषित होनी चाहिए और उन पर पत्तन और उपयोग कर्ताओं के बीच परस्पर, सहमति होनी चाहिए, सीएचपीटी के दरमान के प्रावधानों का अनुपालन करें।
3. इसके प्रत्युत्तर में, सीएचपीटी ने अपने पत्र संख्या टी2/14130/2009/एफ आर दिनांक 31 जुलाई, 2010 के द्वारा निर्धारित प्रारूप में संशोधित प्रस्ताव दाखिल किया जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि वह रू. 44/- प्रति मी.ट. की दर निर्धारित कर दे, संशोधित प्रस्ताव के साथ, दिनांक 25 सितंबर 2009 के हमारे पत्र के माध्यम से हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी थे। संशोधित प्रस्ताव को प्रशुल्क प्रकरण के रूप में पंजीकृत किया गया और अधिकतम 19 सितंबर, 2010 तक अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर देने हेतु, संबंधित उपयोगकर्ताओं को परिचालित किया गया। अभी तक हमें किसी भी उपयोगकर्ता से किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं प्राप्त हुई है। इसलिए, इस मामले में संयुक्त सुनवाई आयोजित नहीं की गई।
- 4.1 संयोगवश, सीएचपीटी ने अपने दरमान के सामान्य संशोधन के लिए एक प्रस्ताव सितंबर 2008 में दाखिल किया था। तदनन्तर, अगस्त 2009 के दौरान सीएचपीटी ने दरमान के सामान्य संशोधन के लिए संशोधित प्रस्ताव दाखिल किया एवं जून 2010 में इसे अद्यतन किया।
- 4.2 सैमी मैकेनाइज्ड कोल कन्वेयर सिस्टम के प्रचालन के लिए प्रशुल्क निर्धारण करने हेतु पत्तन के प्रारंभिक प्रस्ताव के संदर्भ से पूछे गए, हमारे प्रश्नों के प्रत्युत्तर में, सीएचपीटी ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी बताया कि इस सेवा से प्राप्त आय 20 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर दरमान के सामान्य संशोधन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आय अनुमानों में शामिल किया गया है। यद्यपि सी एच पी टी ने इस गतिविधि के लिए एक अलग प्रस्ताव दाखिल किया था। इसने अपने संदर्भित दरमान की सामान्य अन्य संशोधन के लिए जून, 2010 के अपने अद्यतन प्रस्ताव में इस गतिविधि से संबंधित आय और व्यय को शामिल किया है।
- 4.3 सीएचपीटी के द्वारा दाखिल सामान्य संशोधन प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया है। सामान्य संशोधन की कवायद में, समग्र रूप में पत्तन की वित्तीय/लागत स्थिति के व्यापक आकलन में, इस सुविधा में उत्पन्न होने वाली, वर्ष 2009-10 की वास्तविक आय और वर्ष 2010-11 से 2010-13 की अनुमानित आय के साथ-साथ, इन वर्षों में इस सुविधा के प्रचालन पर वास्तविक एवं अनुमानित व्यय पर विचार किया गया है। चूँकि सामान्य संशोधन प्रस्ताव में विचार की गई वास्तविक एवं अनुमानित वित्तीय/लागत स्थिति में वर्ष 2009-10 से सैमी-मैकेनाइज्ड कोल हैंडलिंग सिस्टम से संबंधित आय और व्यय दोनों शामिल हैं, इस सुविधा के लिए भी दरमान में रू.20/- मी.टन. पर एक दर निर्धारित है जो आय अनुमान में विचार की गई दर की बराबर है।

5. उपरोक्त स्थिति के मद्देनजर नए सेमी मैकेनाइज्ड कोल कन्वेयर सिस्टम के लिए दर निर्धारण करने के लिए सीएचपीटी के द्वारा दाखिल अलग प्रस्ताव आनावश्यक हो जाता है और इसलिए प्रकरण को बंद किया जाता है।

रानी जाधव, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/143/10-असा.]

# TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

## NOTIFICATION

Mumbai, the 31st December, 2010

**No. TAMP/34/2009-CHPT.**—In exercise of the powers conferred under Sections 48 and 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal of the Chennai Port Trust (CHPT) for fixation of rate for handling of Coal through New Semi-mechanised Closed Coal Conveyor System as in the Order appended hereto.

# TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/34/2009-CHPT

The Chennai Port Trust

....

Applicant

## ORDER

(Passed on this 10th day of November, 2010)

This case relates to a proposal received from the Chennai Port Trust (ChPT) for fixation of rate for handling of Coal through New Semi-mechanised Closed Coal Conveyor System.

2.1 The ChPT vide its letter dated 11 September 2009 filed a proposal for fixation of rate at Rs.20/- per MT for handling of Coal through New Semi-mechanised Closed Coal Conveyor System. The ChPT also informed that it would be operating the proposed rate on ad hoc basis as per the provision contained in its Scale of Rates (SOR).

2.2 Since the proposal filed by the ChPT was not in the format prescribed for fixation of tariff of Equipment and the draft SOR did not contain conditionalities governing the levy of proposed rates, it was returned to ChPT, along with some queries, vide our letter dated 25 September 2009 with a request to resubmit the proposal with requisite details. The port was also advised to follow the provisions in the SOR of ChPT for deriving the ad hoc rate for the service which stipulate that the ad hoc rate must be derived based on the existing notified tariff for comparable services and it must be mutually agreed upon by the port and concerned users.

3. In response, the ChPT vide its letter No.T2/14130/2009/FR dated 31 July 2010 filed a revised proposal in the prescribed format along with reply to the queries raised by us vide our letter dated 25 September 2009, requesting this Authority to fix a rate of Rs.44/- per MT. The revised proposal was registered as

a 'tariff case' and circulated to the concerned users for their comments by 19 September 2010. We have not received comments from any of the users so far. Joint hearing in this case was, therefore, not set up.

4.1. Incidentally, the ChPT filed a proposal for general revision of its Scale of Rates (SOR) in September 2008. Subsequently, the ChPT filed revised proposal for general revision of its SOR during August 2009 and updated it in June 2010.

4.2. In response to our queries raised with reference to the port's initial proposal for fixation of tariff for operating the semi-mechanised coal conveyor system, the ChPT, inter-alia, stated that the income arising out of this facility has been included in the income estimates of the proposal submitted for general revision of SOR at Rs.20/- per MT. Though the ChPT filed a separate proposal for this activity, it has included the income and expenses relating to this activity in its updated proposal of June 2010 for general revision of its SOR referred.

4.3. The general revision proposal filed by the ChPT has been finalised. The actual income for the year 2009-10 and estimated income for the years 2010-11 to 2012-13 arising out of this facility have been considered along with the actual and estimated expenses for operating this facility for the respective years in the comprehensive assessment of the financial / cost position of the port as a whole made in the general revision exercise. Since the actual and estimated financial / cost position considered in the general revision proposal include both income and expenditure pertaining to semi-mechanised coal handling system from the year 2009-10 onwards, a rate for this facility is also prescribed in the SOR at Rs.20/- per MT at par with the rate considered in income estimation.

5. In view of the above position, the separate proposal filed by the ChPT for fixation of rate for semi-mechanised coal conveyor system has become superfluous and, therefore, the case is closed.

RANI JADHAV, Chairperson

[ADVT. III/4/143/10-Exty.]